

METAL COATINGS (INDIA) LTD.

Works II: 113, HSIIDC Indl. Estate, Sector - 59, Faridabad - 121 004 Phones: 09999972371, Fax: 0129-2307422



Date: 2nd September, 2020

To, **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers

1st Floor, Dalal Street

Mumbai- 400 001

Sub.: Newspaper Publication - Notice informing about the 26th Annual General Meeting of the Company

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - METALCO

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject, we enclose herewith copies of notice to shareholders of the Company published in newspapers by way of advertisement intimating that the 26th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 11:30 A.M. IST through video conferencing (VC) / other audio visual means (OAVM) including other details. This advertisement was published on 2nd September, 2020 in newspapers 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi).

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

Kapil Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED Corporate Indentity Number: L15421UP1932PLC022174

Regd. office: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554 Corp. office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, U.P. - 201301 E-mail: shares@trivenigroup.com, Website: www.trivenigroup.com, Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010-11

Prior Information regarding 84th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 84th Annual General Meeting ("AGM") of the Compani will be held on Monday, September 28,2020 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / other Audio Visual Means ("DVAM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars No. 14/2020 dated April 8,2020, No 17/2020 dated April 13,2020 and No. 20/2020 dated May 5,2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Circular No. SEBI/HO/CFO/CMD1/CIR/P 2020/79 dated May 12,2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEB Circular "), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM, which is being circulated separately to the members.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for 2019-20 will be sent to all members whose email ids are registered with the Company / Depositories / Depository Participants in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, Members may also note that the Notice of the AGM and the Annual Report will be available on the Company's website at www.trivenigroup.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Private Limited, ("KFintech") at https://evoting.kfintech.com. Members can attend the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the Meeting through VC/DAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members are requested to contact the Depository Participants in case of shares held in electronic form and the Company's Share Department/Registrar and Share Transfer Agent (RTA), KFintech in case of shares held in physical form for validating / updating their e-mail address and mobile nos, including address and bank details.

Members will have an opportunity to cast their votes(s) remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting. The manner of remote e-voting for shareholders in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their e-mail address is provided in the Notice of the AGM, which will also be available on the website of the Company at www.trivenigroup.com and on the website of KFintech at https://evoting.kfintech.com.

The facility for e-voting will also be provided at the AGM ("Insta Poll") and Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at the meeting through Insta Poll.

The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through e-mail. Members who do not receive an e-mail or whose e-mail address are not registered with the Company/ its RTA (Depositary Participants(s) may generate login credentials by following the instructions given in the AGM Notice.

The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM. For Triveni Engineering & Industries Ltd.

Date: 01 Sept., 2020 Place: Noida (U.P.) Group Vice President & Company Secretary

HEXA TRADEX LIMITED HEXA CIN - L51101UP2010PLC042382

General Meeting.

Regd. Office: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403 Corp. Office: Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

Notice is hereby given that the 9th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 25th September, 2020 at 2.00 P.M. at the registered office of the Company at A-1, UPSIDC Industrial Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, District Mathura-281403, (U. P.) to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members who email is not registered may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.hexatradex.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Annual Report 2019-20 along with Notice is being sent to the members holding shares on cut off date 21st August,

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 19th September, 2020 to 25th September, 2020 (both days inclusive). Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with

rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote electronically on the resolutions to be transacted at 9th AGM of the Company. The member please note the followings:

a. The remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. on Tuesday, 22nd September, 2020 and shall end at 5.00 p.m. on Thursday, 24th September, 2020.

. The remote e-voting shall not be available beyond 5.00 p.m. on Thursday, 24th September, 2020. . The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and voting

through poll at AGM is 18th September, 2020. . Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 18th September, 2020, may obtain the

user id and password by contacting M/s. RCMC Shares Registry (Pvt.) Ltd., R & T Agent of the Company at B-25/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020, phone-011-26387320-21, Fax-011-26387322, Email-evoting.services@rcmcdelhi.com. The members who cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote at AGM.

The facility of voting through poll shall be available at the AGM to those members who have not casted their vote through remote e-voting Members may go through the e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit

https://evoting.nsdl.com and in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for members available at the download section of https://evoting.nsdl.com

> For Hexa Tradex Limited **Pravesh Srivastava**

| Place: New Delhi Date: 01.09.2020

Company Secretary ACS-20993

JITF INFRALOGISTICS LIMITED **CIN NO.**: L60231UP2008PLC069245 Registered Office: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road,

Kosi Kalan, Distt. Mathura - 281403, India JIDDAL Website: www.jindalinfralogistics.com, E-mail: contactus@jindalinfralogistics.com NOTICE OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

held on Friday, 25th September, 2020 at 03.30 P.M. at the registered office of the Company at A-1, UPSIDC Industrial Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, District Mathura-281403, (U. P.) to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the

AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members who email is not registered may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.jindalinfralogistics.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Annual Report 2019-20 alongwith Notice is being sent to the members holding shares on cut off date 21st August. 2020.

regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 19th September, 2020 to 25th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend at the AGM.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and

Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote electronically on the

resolutions to be transacted at 13th AGM of the Company. The member please note the followings:

Place: New Delhi

a. The remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. on Tuesday, 22nd September, 2020 and shall end at 5.00 p.m. on Thursday, 24th September, 2020.

b. The remote e-voting shall not be available beyond 5.00 p.m. on Thursday. 24th

September, 2020. c. The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and voting

through poll at AGM is 18th September, 2020.

d. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 18th September, 2020, may obtain the user id and password by contacting M/s. RCMC Shares Registry (Pvt.) Ltd., R & TAgent of the Company at B-25/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020, phone-011-26387320-21, Fax-011-26387322, Email-evoting.services@rcmcdelhi.com.

e. The members who cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote at AGM.

The facility of voting through poll shall be available at the AGM to those members who have not casted their vote through remote e-voting.

Members may go through the e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit https://evoting.nsdl.com and in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for members available at the download section of https://evoting.nsdl.com

For JITF Infralogistics Limited

Alok Kumar Company Secretary



CIN: L40101DL1975GOI007966 Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi- 110003, Tel. no.: 011-24360959 Fax: 011-24360241 Email: csntpc@ntpc.co.in Website: www.ntpc.co.in

NOTICE OF THE 44" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 44" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 24" September, 2020 at 10.30 A.M. though Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as stated in the notice dated 28" August, 2020. 44"Annual Report including notice of AGM. Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and Directors' Report for the financial year ended 31" March, 2020 have been sent to the shareholders of the Company only through emails at their registered e-mail addresses as permitted in accordance with the MCA Circular dated 5" May 2020. Annual Report along with the notice of the 44" AGM is available on the

Company's website i.e. www.ntpc.co.in, and website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Notice is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from 18" September, 2020 to 23" September 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for the resolutions as set in the AGM Notice dated 28"August, 2020 through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The remote e-voting period will commence on Monday, 21" September, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Wednesday, 23th September, 2020 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure instruction for remote e-voting are contained the Notice of AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 17" September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM. Any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice

of AGM but on or before the cut-off date can also cast his/her vote by logging on www.evotingindia.com, using their log-in credential. If a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote A member may participate at the AGM through VC/OAVM even after

exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled

to cast his/her vote again. Members may note that the facility of e-voting shall also be made available at the AGM for members who had not casted their votes through remote e-voting The Board of Directors has appointed Mr. Ranjeet Pandey of M/s Ranjeet Pandey & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer, for

conducting the voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM notice carefully. If you have any queries or issues regarding attending AGM through VC/ OAVM or e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

10. To support green initiative, members who have not registered their e-mail address so far or who want to update their e-mail address, are requested to \$\frac{1}{2}\$. approach their respective DP (for electronic holding) or with Alankit Assignments Limited / Company (for physical holding), for receiving all communications electronically. For NTPC Limited

(Nandini Sarkar) Place: New Delhi Company Secretary Date: 01.09.2020 Leading the Power Sector

ABHEY Oswal Greentech Limited (Formerly known as Oswal Chemicals & Fertilizers Ltd) CIN - L24112PB1981PLC031099

Regd. Office: Near Jain Colony, Vijay Inder Nagar, Daba Road, Ludhiana - 141003 (Punjab) Corporate Office: 7th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Delhi - 110001 Ph: 011-23715242, Fax: 011-23716276

Email: oswal@oswalgreens.com, Website: www.oswalgreens.com NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING

AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 38" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Oswal Greentech Limited ("the Company") will be held on Thursday, 24" September 2020 at 12:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the Ordinary Business as set out in the Notice of 38" AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April 2020, 13" April 2020 and 5" May 2020, respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May 2020, issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the Notice calling the AGM

In accordance with the said circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM dated 28' August 2020 and the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 ("Annual Report 2019-20") have been sent through email on Tuesday, 1"September 2020, to those members whose email addresses are registered with the Company or the depositories/ depository participants. These documents are also available on the website of the Company at www.oswalgreens.com. the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM through voting by electronic means ("Evoting") and the business set out in the notice of AGM may be transacted through E-voting. The Company has engaged NSDL to provide the facility of remote E-voting to the members and the facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/ OAVM. The members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com/ under shareholder/ member login by using remote Evoting, attending the AGM through VC/OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for members who have not registered their email address has been provided in the notice of AGM.

We further inform that:

The remote E-voting shall commence on Monday, 21" day of September, 2020 a 09:00 am IST

The remote E-voting shall end on Wednesday, 23" day of September, 2020 at 05:00

The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote E-voting or through the E-voting system during the 38" AGM, is 17" September, 2020. A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficia Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting, participating in the 38" AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the 38" AGM.

The remote e-voting module shall be disabled BY NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on resolution is cast by the member shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who becomes member of the company after sending the Notice of the 38" AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 17" September 2020. may obtain the login ID and password by following the instructions as mentioned in the notice of 38th AGM or sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user id and password to cast their vote.

The members participating in the 38" AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 38" AGM.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 38" AGM may participate in the 38" AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the 38" AGM. viii) Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder and

Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18" September 2020 to 24" September 2020 (both days inclusive) for the purpose of 38° AGM of the Company. Mr. Paramnoor Singh, Managing Partner of R Arora & Associates, Chartered Accountants, New Delhi has been appointed as Scrutinizer by the Company to

scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner. The results of voting shall be declared within 48 hours from the conclusion of AGM and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website (www.oswalgreens.com) and NSDL's website

(www.evoting.nsdl.com) In case of any queries/ grievances connected with the remote E-voting and the Evoting in the AGM or if the members need any assistance before or during the AGM. the members may write to NSDL at email IDs: evoting@nsdl.co.in or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 or may write to Secretarial Department of the Company at email id: cs@oswalgreens.com or at the address and telephone numbers of the Corporate office of the Company given above.

Manner of registering and updating email address by members Members holding shares in physical mode, who don't have registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at oswal@oswalgreens.com:

complete address, email id and mobile number; and b) Scanned copy of Self-attested PAN card.

A signed request letter mentioned their name, folio no., share certificate number.

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated

Place: New Delhi

their email id with Depository Participant(s), are requested to register/update their email id with their relevant Depository Participant(s). Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM

including the instructions for attending the AGM, manner of casting vote through remote evoting/e-voting during the AGM. Please write to the Secretarial Department of the Company at cs@oswalgreens.com in respect of queries regarding aforesaid.

For Oswal Greentech Limited Sonal Malhotra

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED Registered Office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L74899DL1994PLC063387; Website: www.mcil.net E-mail ID: info@mcilindia.net; Tel: +91-11-41808125

NOTICE INFORMING ABOUT THE 26™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY The 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 29th September, 2020 at 11:30 AM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (Collectively called "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by electronic mode to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.mcil.net, the Stock Exchange's website at www.bseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited("LIIPL") at

Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as set out in the notice Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses, are requested to update their

email addresses by writing to the Company at cs@mcilindia.net along with the copy of the signed request letter mentioning folio number along-with self attested copy of the PAN card and any one document i.e. Driving License, Election Identity Card, Passport or Aadhar Card. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/ updated their email addresses. are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain

Place: New Delhi Kapil Sharma

Company Secretary & Compliance Officer Dated: 01.09.2020

Anup

ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LTD. CIN: L15520MP1989PLC049380

Regd Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore-452 008 (M.P.) e-mail: investorrelations@aabl.in website: www.associatedalcohols.com, Phone: 0731-4780400

NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of

SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of the company is scheduled to be held on Saturday, 12th September, 2020 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Result for the Quarter Ended on 30th June, 2020. This Notice is also available on the website of the company at

www.associatedalcohols.com and on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www1.nseindia.com

For: Associated Alcohols & Breweries Ltd. Sumit Jaitely

Date: 01.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer Place: Indore

THE ANUP ENGINEERING LIMITED

(Formerly known as Anveshan Heavy Engineering Limited) CIN: L29306GJ2017PLC099085

Regd. Office: Behind 66 KV Elec. Sub-Station, Odhav Road, Ahmedabad-382415

Tel. No.: +91-79-2287 2823 Fax No.: +91-79-2287 0642 Email: investorconnect@anupengg.com Website: www.anupengg.com

NOTICE OF THE 3RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E - VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 3rd Annual General meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Saturday, 26th

September, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the

By order of Board of Directors

General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 (said "SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India, to transact the business as set out in the Notice of AGM. Incompliance with the above circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 (Annual Report)

will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. The Notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.anupengg.com, websites of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration)

Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations')

that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 19th September 2020 till Saturday,

26th September 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to determine the members entitlement for the payment of final dividend for the financial year 2019-20. The final dividend if declared at the AGM will be paid / dispatched subject to deduction of tax at source (TDS) to those members, whose names appear in the Register of Members and/or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the close of business hours Friday, September 18, 2020. Pursuant to the changes introduced by the Finance Act 2020, w.e.f. April 1, 2020, the Company would be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. Accordingly, the above referred Final Dividend will be paid

dend/. In case the dividend declared at AGM could not be paid due to non-availability of the details of the bank account, the company shall dispatch the dividend warrant / demand draft to such shareholder by post upon normalization of the postal services. The Company is providing the facility of remote e-Voting as well as e-Voting during the AGM to all the members to cast their vote electronically on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL'), for providing the e-Voting facility to the Members. Facility for e-Voting during the AGM will be made available to those Members who attend the AGM and have not already casted their vote through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend / participate inthe AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

after deducting the TDS. For the detailed process, the information is available on the Company's website at https://www.anupengg.com/divi-

The details of e-Voting and the process of e-Voting will be provided in the Notice of the AGM. The remote e-Voting period will commence at 09:00 A.M. (IST) on Wednesday, 23rd September 2020 and will end at 05:00 P.M. (IST) on Friday, 25th September 2020. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The cut-off date for determining eligibility of members through remote e-Voting and voting at the AGM is Saturday, 19th September 2020. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holds shares as of the cut-off date, may obtainthe login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in mentioning their demat account number/folio number. PAN, name and registered address. The procedure for electronic voting is available in the Notice of AGM as well as in the mail sent to Members by NSDL. Please refer e-Voting user manual for Shareholders available in the download section at https://www.evoting.nsdl.com.

In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call ontoll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on their toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL officials Mr. Pratik Bhatt at designated email ID: pratikb@nsdl.co.in or at telephone no.: +91-22-24994738, or Ms. Sarita Mote at designated email ID: saritam@nsdl.co.in or at telephone no.: +91-22-24994890.

By order of the Board For The Anup Engineering Limited

Date: 01.09.2020

set out in the Notice of the AGM.

by the Members will not be available since the AGM is being held by VC / OAVM.

Members login where the EVSN of the Company will be displayed.

Member shall not be allowed to change it subsequently.

Place: Mumbai

date should follow the same procedure of e-Voting as mentioned in the AGM Notice.

Place: Ahmedabad

Chintankumar Patel **Company Secretary**



(CIN: L92199GJ1999PLC044045) Registered office: ABS Towers, Old Padra Road, Vadodara – 390 007, Gujarat.

Telephone: (91 265) 6198111 | **Fax:** (91 265) 2310312

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of INOX Leisure Limited ("Company") is scheduled to be held on

Wednesday, 23rd September, 2020 at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Businesses, as

INOX LEISURE LIMITED

Website: www.inoxmovies.com | Email id: contact@inoxmovies.com

In view of the continuing pandemic caused by COVID-19, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively (collectively referred to as "MCA" Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 ("SEBI Circular"), permitted the holding of AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Rules made thereunder, as amended from time to time, read with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), MCA Circulars and SEBI Circular, the AGM of the Company will be held through VC / OAVM. Members participating through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 has been sent by electronic mode to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the 21st AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 is also uploaded on website of the Company i.e. www.inoxmovies.com under 'Investor Relations' section and the websites of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com and also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

In order to receive the Notice and Annual Report, Members are requested to register / update their e-mail address with their Depository Participant(s), in case they have not already registered / updated the same. Members who are holding shares in physical form are requested to get their email address registered with the Registrar and Share Transfer Agents (RTA) by sending email at einward.ris@kfintech.com.

Process for registering e-mail addresses to receive the Notice for the AGM electronically and cast votes electronically (In case email id is not registered):

For Members holding shares in Physical form – Kindly provide necessary details like Folio No., Name of Member, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy), AADHAR (self-attested scanned copy) by email to Company at investors@inoxmovies.com or to RTA at einward.ris@kfintech.com.

For Members holding shares in Demat form – Kindly provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID),

Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy), AADHAR (self-attested scanned copy) to Company at investors@inoxmovies.com or to RTA at einward.ris@kfintech.com. Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evotingindia.com under Members login by using the remote e-Voting credentials. The link for VC / OAVM will be available in Shareholders /

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-Voting as well as the e-Voting at the AGM to its Members in respect of all resolutions set out in the Notice of the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency.

The detailed instructions of casting the votes through e-Voting is provided in the Notice of the AGM. All Members are requested to take note of the following schedule of e-Voting.

Particulars	Date
Date of completion of dispatch of Notice	Tuesday, 1 st September, 2020
Date & time of commencement of remote e-Voting	Sunday, 20 th September, 2020 at 09:00 A.M.
Date & time of end of remote e-Voting	Tuesday, 22 nd September, 2020 at 05:00 P.M.
Cut-off date	Wednesday, 16 th September, 2020
Date of declaration of result	On or before Friday, 25 th September, 2020

The e-Voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the

Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, 16th September, 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before as well as voting in the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off

In case you have any grievances connected with e-Voting, please refer the e-Voting manual/ Frequently Asked Questions ("FAQs") available at www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact the undersigned.

> By order of Board of Directors For INOX Leisure Limited

> > Parthasarathy lyengar Company Secretary

Sd/-

parthasarathy.iyengar@inoxmovies.com **Phone:** 022 – 4062 6900

Address: Viraj Towers, 5th Floor, Next to Andheri Flyover, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai – 400 093.

Date: 1st September, 2020 Date: 01.09.2020 ACS-19819 Date: 2" September 2020 Company Secretary financialexp.ep New Delhi



RELAXO FOOTWEARS LIMITED

CIN No:- L74899DL1984PLC019097 Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085 Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT. NO(S).	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (in ₹)
RNE0001032	ARUNA MEHTA	100206	220721-224720	4000	1.00

lodge such claim / objection with Kfin Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Gachibowli, Hyderabad - 500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector- 3, Rohini, Delhi - 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

> For Relaxo Footwears Limited Vikas Kumar Tak

Date: September 1, 2020

Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be contents, nor for any loss or transactions with companies,

held responsible for such damage incurred as a result of associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

(प्रतिभृतित परिसंपत्तियां)

रु. जो 17.11.2018 को है (इस राशि नई दिल्ली (रकबा लगभग 1340 वर्ग फीट) के

फ्लैट नंबर 8272

साख समीक्षा निगरानी एवं वसूली शाखा

आरओ सेन्ट्रल दिल्ली टेलीफोन: 011-26414751

(प्रधान कार्यालय: बैंग्लोर 560002)

मंजिल) पॉकेट - 8, सेक्टर - सी, वसंत कुंज,

सभी अंग। संपत्ति को पश्चिम दिशा लग रही है

और चारों ओर से घिरा हुआ है – दक्षिण – फ्लैट

नंबर 8271, पूर्व - खुला आसमान, उत्तर

(प्राधिकृत अधिकारी), एक्सिस बैंक लि.

प्राधिकृत अधिकारी

(Amount in Lakhs Except EPS

30-Jun-19

Un-Audited

119.45

11.36

11.36

11.36

0.003

For Virtual Global Education Limited

Neeraj Kaushik

DIN: 02462310

(Director)

4,236.64

Quarter Ended

31-Mar-20

Audited

81.58

8.02

8.02

8.02

0.002

4,236.64

30-Jun-20

Un-Audited

36.62

7.77

7.77

7.77

0.002

4,236.64

केनरा बैंक

ended

31-Mar-20

Audited

442.7

36.93

23.66

23.66

0.006

4,236.64

TRANSFER OF MEMBERSHIP

ALLGROW FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD Shop No. 118, Tikona Park, N.I.T., Faridabad, Haryana – 121001 Member of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX) and Multi Commodity **Exchange of Clearing Corporation Ltd. (MCXCCL)**

Registered Office: CTS No. 255, Exchange Square, Suren Road, Andheri East, Mumbai-400093.

NOTICE is hereby given that We/M/s. Allgrow Finance and Investments Pvt. Ltd., Member of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (Exchange) and Multi Commodity Exchange of Clearing Corporation Ltd. (Clearing Corporation), having Member ID. 28355 and SEBI Registration No. INZ000053430 are applying to MCX and MCXCCL for transfer of our Membership.

Any client / constituents having any claim / dispute / complaint against us arising out of the transactions in commodities futures through Exchange may furnish details of their claim in writing to the Membership Department of the Exchange (MCX) and Clearing Corporation (MCXCCL) at the Registered Office address indicated above, enclosing therewith all supporting documents, and no such claim / dispute / complaint filed beyond 15 days will be entertained by the Exchange against the above Member and it shall be deemed that no such claim / dispute / complaint exists against the above mentioned Member or such claims / disputes / complaints, if any, shall be deemed

Any claim / dispute / complaint filed against us within 15 days will be dealt with in accordance with the Bye-Laws, Rules and Business Rules/Regulations of the MCX/MCXCCL. Authorised Persons (APs), if any, registered through me /us cease to exist and therefore, such APs are not authorized henceforth to deal in that capacity

For ALLGROW FINANCE AND INVESTMENT PVT LTD

Pooia Sharma Ranian

Company Secretary

Place-Faridabad Date: 31 August 2020

> LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड DK IAIN पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल. हरबंश भवन-॥ कमर्शियल कॉम्पलेक्स.

नांगल राया, नई दिल्ली-110046 वेबसाइटः www.lumaxworld.in/lumaxindustries, दूरमाष : 011-49857832 र्डमेल: Jumaxshare@lumaxmail.com सीआईएन : L74899DL1981PLC012804

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 201(2)(ख) के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों को एतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि कम्पनी, केन्द्र सरकार के सम्मुख कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 एवं उक्त अधिनियम के अन्य लाग् प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित अनुसूची 🗸 सहित एवं धारा 196, 197,198 के अंतर्गत श्री केन्जीरो नाकाजोनो (डीआईएन: 08753913), जो अनिवासी हैं, तथा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के भाग 1 के खंड (ई) में निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 18 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित नियम एवं शर्तो तथा पारिश्रमिक के साथ 18 जुन, 2020 से प्रभावी तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी में कार्यपालक निदेशक

चाहती है। कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दिनाक: 27.08.2020 स्थान: दिल्ली के पद पर नियुक्त किये जाने का अनुमोदन प्राप्त करने हेत् आवेदन प्रस्तुत करना

स्थान : नई दिल्ली पंकज महेन्द्र तिथि: 01.09.2020 कंपनी सचिव

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजी. कार्याः 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 CIN: L74110DL1980PLC010678 फोन: 91-11 -40045955

ई मेसः compliance@kotiaenterprises.com, वेबसाइटः www.kotiaenterprises.com 30 जन, 2020 को समाप्त तिनाही के लिए अनंकेलित विशीय परिणाम

ø. V.	विवरण	समाप्त विमाही 30.06.2028 अनं के सिव	समाप्त तिमाही 30.06.2019 जनकेशित	समाप्त पिछला वर्ष 31.03.2020 अंकेमित
1	प्रवालन से कुल आय (शुद्ध)	16.22	1927.69	4093.03
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व जसाधारण मदों से पूर्व)	12.81	44.98	132.29
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण गर्दों के बाद)	12.81	44.98	132.29
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	9.48	33.28	95.35
53	अविधे के लिए कुल व्यापक आय (अविधे के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	9.95	42.35	109
6	इविवटी शेयर पूंजी	702.05	702.05	702.05
7	पिछले वर्ष की जंकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाए अनुसार रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्ज्स को छोडकर)			ě
8	प्रति शेयर आय (असाधारण गर्दो के बाद) (प्रत्येक र 10 / -) बेसिक : डायल्यूटिक:	0.14 0.14	0.47 0.47	1.36 1.36

01 सितम्बर, 2020 को आयोजित बैठक में 30 जून, 2020 को समाप्त तिमारी के लिए उपरोक्त अनंकेक्षित वितीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और फिर निदेशव

- मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण जावश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के जनुसार स्टॉक एक्सबेंजों के साथ दर्ज की गई ऊपरोक्त 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए वितीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- अपवादात्मक और/व असाधारण मदें, Ind-AS नियम के अनुसार लाग और हानि के विवरण में
- कोविड -19 महामारी का प्रकोप वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। प्रबंधन ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो संपत्ति की वसूली / वहन मुख्य पर महामारी से उत्पन्न हो सकतें हैं। भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, प्रबंधन को उम्मीद है कि परिसंपतियों की वहन राशि की क्सूली की जाएगी, हालांकि प्रबंधन मंत्रिष्य की आर्थिक परिस्थितियों के लिए किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा। अनिश्चितताओं को देखते हुए, भविष्य में कंपनी की परिसंपत्तियों पर अंतिम प्रमान इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख से अनुमानित रूप से अलग हो सकता है।

कृते कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड इस्ता./-अंकित अग्रवाल

विषिः 01 सितम्बर, 2020 (प्रबंध निदेशक) रधानः नई दिल्ली DIN: 05254327

एन टी पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) सीआईएन नं. L40101DL1975GOI007966

पंजीकत कार्यालय पताः एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप कॉम्प्लेक्स, –इंस्टीटयुशनल एरिया, लोघी रोड, नई दिल्ली–110 003, टेली.: 011-24360959 फैक्सः 011-24360241 ईमेलः csntpc@ntpc.co.in, वेबसाईटः www.ntpc.co.in

44वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना एततद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठव

(एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम र गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित की जाएगी, जिसका उददेश इसकी 28 अगस्त, 2020 दिनांकित सूचना में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करना है एमसीए परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के अनुपालन में मिली स्वीकृति के अनुसार 44वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सचना, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रटेंडअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण, अंकेक्षक की रिपोर्ट और निदेशक की रिपोर्ट कंपनी के शेयरधारकों को केवल उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी गई है। 44वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in एवं स्टॉव

एततृद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अंतर्गत एवं के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के अनुसार एजीएम व उददेश्य से कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर ट्रांसफर वृक्त 18 सितंबर, 2020 रं 23 सितंबर, 2020 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम,

एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है (

2014 के नियम 20, समय-समय पर संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व और आवश्यव उदघोषणा) विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुसार, कंपनी सहर्ष अपने सदस्यों को रिमोर ई—वोटिंग की सुविधा दे रही है, ताकि वे सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेर (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से 28 अगस्त, 2020 की एजीएम सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकें। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 21 सितंबर, 2020 को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे आरंग

हो कर और बचवार, 23 सितंबर, 2020 को भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे समाप्त होगी इसके बाद सीडीएसएल मतदान के ई-बोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर देगी। किसी प्रस्ताव पर मतदान कर देने के बाद सदस्य इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। रिमोट ई-मतदान वं बारे में विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश, एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से मतदान / एजीएम में मतदान की सुविधा केवल उसे होगी जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितंबर 2020 को सदस्यों की पंजी या डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध लाभार्थी स्वामियों की पंजी में होगा। एजीएम की सुबना भेजने के बाद परंतु कट-ऑफ तिथि या उससे पहले कंपनी के सदस्य

बनने वाले अंशधारक, www.evotingindia.com पर लॉग-इन क्रेडेशियल के उपयोग से लॉग इन कर एजीएम में शामिल होकर अपना वोट डाल सकता है। हालांकि ई-वोटिंग के लिए पहले से सीडीएसएल में पंजीकृत सदस्य वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ मतदान रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर चुके सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम र

भाग ले सकते हैं पर दोबारा मतदान नहीं कर सकते। सदस्यगण ये ध्यान रखें कि एजीए में भी ई-वोटिंग की सुविधा दी जाएगी पारदर्शिता और ईमानदारी से मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के उददेश्य से निदेशक

मंडल ने मैसर्स रंजीत पांडेय और एसोसिएटस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्टेटरिज के श्री रंजीत पांडेय को स्कूटनाइजर नियुक्त किया है। सदस्यों से आग्रह है कि वे एजीएम सूचना में प्रकाशित ई-वोटिंग से संबंधी निर्देश सावधानी

से पढ़ लें। यदि आपके पास वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने य ई—वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्तर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू" और ई-वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन की सहायता ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा श्री निर्तिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं।

10 अब तक ई-मेल रजिस्टर नहीं कराने वाले सदस्य या ई-मेल अपडेट करने के इच्छक सदस्य पर्यावरण सरक्षा में सहयोग के उददेश्य से कपया अपने डीपी (इलेक्ट्रॉनिक ई होल्डिंग हेत्) या अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड/कंपनी (भौतिक रूप से होल्डिंग हेत्) से सम्पर्क करें, ताकि सभी सचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिल सकें।

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

कृते एनटीपीसी लिमिटेड

नंदिनी सरकार)

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 01.09.2020 State Bank of India 🕡 भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-प, 18/4, तृतीय एवं चतूर्थ तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

सरफेसी अधिनियम 2002 की संपत्ति u/S 13(4) के कब्जे के बारे में नोटिस का प्रकाशन

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सचना प्रत्येक खाते के समक्ष तथा इसमें आगे वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिनमें उनसे बकाया राशि का भूगतान उक्त सूचना की

प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार राशि चकाने में विफल रहे हैं. एतदद्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

रतदद्वारा, कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार भारतीय स्टेट बैंक की बकाया राशि और उस पर ब्याज का भूगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्यामृत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

खाते/कर्जदार का नाम एवं पता	सम्पत्ति के स्वामी/पार्टनर/ गारंटर का नाम	बंधक / प्रभारित सम्पत्ति का वर्णन	13(2) सूचना की तिथि कब्जा की तिथि	बकाया राशि
मैसर्स फॅशन प्वाइंट श्री मनीष गोयल पुत्र श्री अजय गोयल-स्वामी, म्युनिसिपल नंबर 198, मोहल्ला मैयाना रोड, मेरठ	श्री अजय गोयल मैसर्स फैशन प्वाइंट	सेल डीड नंबर : 2053 दिनांकित 28-02-2006 के अधीन आवृत्त श्री अजय गोयल पुत्र श्री के एल. गोयल के नाम मोहल्ला मलयाना रोड, मेरठ स्थित 72 वर्ग मीटर परिमाप की दो मंजिला बिल्डिंग का साम्यिक बंधक। टाइटल डीड के अनुसार परिमाप और चौहद्दी निम्नानुसार हैं: पूरब : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : रास्ता, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	27.08.2020	02-06-2020 तक रू. 46,36,822.00 (रू. छियालीस लाख छत्तीस हजार आठ सी बाईस मात्र)
जगप्रवेश शर्मा	गप्रवेश शर्मा श्री जगप्रवेश शर्मा पुत्र 04-07-2015 के अवीन आकृत श्री जगप्रवेश शर्मा वासुदेव शर्मा श्री वासुदेव शर्मा श्री नीतिश मारद्वाज पुत्र श्री सर्मा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा के नाम जगप्रवेश शर्मा जगप्रवेश शर्मा के नाम आवासीय मकान सी-76 एवं सी-77	सेल डीड नंबर : 7830 दिनांकित	11.06.2020	10-06-2020
आ जनप्रवेश रामा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा सी-76/77, सरस्वती लोक, निकट माधव पुरम मेरठ		27.08.2020	तक रू. 59,99,270.00 (रू. क्रियालीस लाख क्रत्तीस हजार आठ सी बाईस मात्र)	

LML

Sr. No. Asset

फैबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यासव : 14, एन ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कॅलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 फोन : +91-11-46693725 CIN: U74899DL1976PTC008436

ई-मेल : mailus@fabindia.net वेबसाइट : www.fabindia.com 43वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना

सदस्यों को एतदद्वारा समित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 और संगत प्रावधानों के पथि परित उसके अधीन बनाए गए नियमी तथा आग बैठकों पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किये गये सविवीय मानक-2 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020 दिनांक B अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपन्न सं 22 / 2020 दिनांक 5 मई. 2020 ("एमसीए परिपत्र') के अनुसरण में कम्पनी एजीएम के आयोजन की सुचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को दोपहर 2:30 बजे ऑडियो विडियो माध्यमों से आयोजित करेगी।

एमसीए परिपन्नों के अनुपालन में कम्पनी इस सार्वजनिक सुवना के प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 3 दिन बाद तक अपने सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना भेजने की इच्छक है। इसलिए शेयरघारकगण जिन्होंने कम्पनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे एजीएम में मागीदारी एवं वोटिंग को लिए सश्री मोनिका उप्पल अरोडा, कम्पनी सचिव को है-मेल : monika.uppal@fabindia.net एवं फोन नम्बर +91-9313942073 पर सम्पर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेशान्र

कते फैबडंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड हस्ता

मोनिका उपल अरोडा दिनाक: 31.08.2020 ख्यान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव

> सार्वजनिक सूचना फार्म नं. आइएनसी-26

[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]

एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) कारपोरेट मामलों का मंत्रालय. उत्तरी क्षेत्र. नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पीरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (5) (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में।

और ओमनीप्रेजेंट रिटेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-27/ए, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016, भारत के विषय में

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''पश्चिम बंगाल राज्य'' में अपना पंजीकृत कार्यालय हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु 31 जुलाई, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यायोजित को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी शिकायत इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या भेजे जाने का कारण या निवेशक शिकायत प्रपत्र द्वारा एमसीए-21 (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकत कार्यालय पर भेजनी है:

ओमनीप्रेजेंट रिटेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ए-27/ए, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016, भारत कृते ओमनीप्रेजेंट रिटेल

इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मृगांक सराफ पूर्ण कालिक निदेशक

DIN: 08117637 दिनांकः 02 सितंबर, 2020 स्थानः दिल्ली

Trade Receivables, Advances and other Receivables Last Date to submit: Wednesday, September 16, 2020 For Details: Visit www.lmlworld.in nterested Buyer to Contact : CA. Anii Bhatia. Tel No. 011-41066313, Mob. No.:+91 9899224476 Email id : lml.auction@gmail.com

company, trading suspended)

Arun Gupta, Liquidator IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095 Date: 02.09.2020

15,36,000 shares comprising of 32 % equity shares in VCCL Ltd. (A listed

LML LIMITED (In Liquidation) invites expression of interest for purchase of

हस्त. /- प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

NOTICE

FOR EXPRESSION OF INTEREST

LML LIMITED (In Liquidation)

Regd. Address: A-57, Sector 30, Noida-201301, UP, India Place: New Delhi Regd. Email: arungupta2211@gmail.com

नटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेंब CIN: L74899DL1994PLC063387 **पंजीकृत कार्याम्**य : 912, हेमकुंट चैंबर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

E-mail ID: info@mcilindia.net; Website: www.mcil.net, Tel: +91-11-41808125 कम्पनी की 26वीं वार्षिक साधारण सभा के बारे में सचना कम्पनी की 26वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्यल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम

मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 11:30 बजे पूर्वाः में कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम और कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और सेबी (सामूहिक रूप से "संबंधित परिपत्र" कहा जाता है) द्वारा जारी किया गया सर्कुलर संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 औं 2020, 17 / 2020 दिनांके 13 अप्रैल, 2020 और 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 और अन्य लागू सर्कूलर के तहत एवं सभी लागू प्रावध हे अनुपालन में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। संबंधित परिपत्रों भनुपालन में, एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उसके सा नंबान करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा कम्पनी के सदस्य जिनका ईमेल पता / डिपॉजिं उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.mcil.net . स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर और कम्पनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("LIIPL") की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in प

गैतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने ईमेल पते को अपडेट नही किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी

cs@mcilindia.net पर लिखकर अपने ईमेल पते को अपडेट करें, साथ ही हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ फोलियो नम्बर व उल्लेंख करें साथ स्व–सत्यापित पैन कार्ड और किसी एक दस्तावेज यानी डाइविंग लाइसेंस, चनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट या आधार क डिमेटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य. जिन्होंने अपने ईमेल पते को पंजीकत / अपडेट नहीं किया है. उनसे अनरोध है वि डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत / अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खातों को बनाए रखते हैं।

मेटस कॉटिंग्स (ब्रक्टिया) लिमिटेर कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिका

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली–110009 TATA POWER-DDL

फोन : 66112222, फॅक्स : 27468042, इंमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट : www.tatapower-ddl.com निविदा सूचना आमंत्रित Sep. 02, 2020 टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है: बोली जमा कराने की निविदा पूछताछ सं. अतिम तारीख और समय लागत/धरोहर दस्तावेज निविदा खोलने कार्य का विवरण

TPDDL/ENGG/ENQ/200001238/20-21 02.09.2020 23.09.2020;1600 Hrs/ 84 Lacs/ For Supply of Underground Cable 2.10 Lacs 23.09.2020;1630 Hrs Fault Location System

जमा राशि (रु)

की बिक्री

की तारीख और समय

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents Contracts - 011-66112222

जेआईटीएफ इन्फालॉजिस्टिस लिमिटेड सीआईएन - L60231UP2008PLC069245 **पंजीकृत कार्यालयः** ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403, भारत

वेबसाइटः www.jindalinfralogistics.com, ई—मेलः contactus@jindalinfralogistics.com 13वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020

को दोपहर 03.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए–1 यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा — 281403 (उ.प्र.) में कथित वार्षिक आम बैठक में दी गई सचना के कार्यों के निष्पादन हेत आयोजित की जाएंगी। एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019—20

के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्ही सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जो सदस्य पंजीकृत नही हैं, व ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019—20 कम्पनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉव एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलद्ध होगी। कट ऑफ तिथि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को शेयर रखने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 के साथ नोटिस भेजा जा रहा हैं।

एतदुद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सचींकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) के विनियम 42 के अनुपालन में, कंपनी के सदरयों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 19 सितम्बर, 2020 से 25 सितम्बर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भूगतान के उद्देस्य से बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) 2015 के विनियम 44 वे अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई – वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे : कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से

सदस्य कपया निम्नलिखित नोट करें :

क. दूरस्थ ई—वोटिंग मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और गुरूवार, 24 सितम्बर, 2020 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

ख. दुरस्थ ई—वोटिंग गुरूवार, 24 सितम्बर, 2020 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी ग. दरस्थ ई–वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट

ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2020 है। घ. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2020 को शेयर धारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि.

कंपनी, आर एण्ड टी एजेंट बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2, नइ दिल्ली—110020, फोन 011—26387320—21, फैक्सः 011—26387322, ई—मेल evoting.services@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड

ङ. दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं| किंत उन्हें वार्षिक आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

च. मतदान के माध्यम से वोटिंग की सुविधा वार्षिक आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी जिन्हानें दरू स्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वाटे नही दिया है। छ. सदस्य वार्षिक आमसभा की सूचना में बताए गए ई–वोटिंग के अनुदेश पढ़ें य

https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है।

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिस लिमिटेड के लिए

आलोक कुमार कम्पनी सचिव स्थानः नई दिल्ली तिथि: 01.09.2020 एसीएस-19819

www.readwhere.com

थाना-सिकन्दरपुर, बलिया,

ਚ0प्र0-221717.

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should

Place: Delhi

एक्सिस बैंक लि. सरानी, कोलकाता- 700071

ए.सी. मार्किट बिल्डिंग, चौथा तल, 1 शेक्सपियर (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के साथ के पठित परिशिष्ट IV के अनुसार

चंकि, एक्सिस बैंक लि. का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनयम, 2002 और प्रतिभृति ब्याज के (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस वर्णित राशि के साथ अनबंधीय दर पर ब्याज जमा पेनल ब्याज, प्रभार, लागतों को अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कर्जदारों/गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था। कर्जदार/गारंटरों द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/गारंटरों व सामान्य तौर पर जनता को एतद्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियग 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। कर्जदार/गारंटरों को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतदहारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन नोटिस में वर्णित राशियों के साथ उस पर ब्याज तथा डिमांड नोटिस की तिथि से पेनल ब्याज, प्रभार, लागतों के लिए एक्सिस बैंक लि, के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभृतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने वे

ख) डिमांड नोटिस की तिथि

अचल सम्पत्ति का विवरण

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED

Regd. Off.: 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008

E-mail id: csvirtualeducation@gmail.com, Website: www.virtualeducation.in

CIN: L67120DL1993PLC052256, Ph: 011-25702148

के अंतर्गत बकाया 2,82,38,779.89/-

में 30.09.2018 तक का ब्याज शामिल

ग) कब्जे की तिथि

पहली मंजिल, कमरा नंबर 1डी, कोलकाता- 700017

इसके अलावा- 25 स्ट्रैंड रोड, मार्शल हाउस, 7 वीं मंजिल, कमरा नंबर 744, कोलकाता - 700001 2. श्री चंदर शेखर धवल स्वामी मैसर्स सी.एस. धवल एंड कंपनी

सुपुत्र स्वर्गीय विनोद चंदर धवल, फ्लैट नंबर 1 डी, रसेल अपार्टमेंट्स, 12 बी, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता - 700001, इसके अलावा - फ्लैट नंबर 8272, सेक्टर - सी - 8, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070

ख) 27.02.2019 ग) 26.08.2020

दिनांकः 02.09.2020, स्थान : कोलकाता

केनरा बैंक Canara Bank 🕸 Tistlefur: Dynelleate कब्जा सूचना [धारा 13 (4)] जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के

अंतर्गत ई-सिंडीकेट (अब, केनरा बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 19.02.2020 जारी कर ऋणधारक मै. ग्रैण्ड हीरा रिजॉर्ट को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,63,06,162.90 (रुपये पांच करोड़ तिरेसठ लाख छः हजार एक सौ बासठ तथा पैसे नब्बे मात्र) के साथ 19.02.2020 से ब्याज तथा लागतों आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 27 अगस्त. 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,63,06,162.90 (रुपये पांच करोड़ तिरेसठ लाख छः हजार एक सौ बासठ तथा पैसे नब्बे मात्र)

के साथ 19.02.2020 से ब्याज तथा लागतों आदि के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। मै. ग्रैण्ड हीरा रिजॉर्ट पी.लि. (निदेशक श्री रणधीर यादव, पत्र श्री ब्रह्म सिंह यादव) के नाम में खसरा नं. 303, 327 से 330 एवं 832, ग्राम

हमजापुर (अर्बण एरिया भिवाड़ी), एनएच-08, तहसील बेहरोर, जिला अलवर, राजस्थान में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहदी**: उत्तरः खसरा नं. 834 एवं 289, दक्षिणः खसरा नं. 824 एवं 825, पूर्वः दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, पश्चिमः खसरा नं. 302, 304 एवं 305 तिथि: 27.08.2020, स्थानः नई दिल्ली

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

PARTICULARS

Total Income from operations Net Profit/ (Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax Net Profit/ (Loss) after taxes, minority interest and share of profit/(loss)

Total Comprehensive Income for the period Paid-up equity share (face value ? 1/- each) Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year Earnings Per Share (of 71/- each) (not annualised) A) Basic

B) Diluted Notes: The above Un-Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on Monday, August 31, 2020. The limited review report of the Statutory Auditorsis being filled with the Stock exchange. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the guarter ended June 30, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 along with the Audit report is available on the website of the StockExchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.virtualeducation.in

Place: New Delhi Date: 31.08.2020

इसके अलावाः पोस्ट जमालपर

दाक्षणः अन्य का सम्पात्त पूर्वः मार्ग, सम्पत्ति सं.928

₭.15,13,823 / 一 + ब्याज (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India माँग सूचना 13(2) शाखा कार्यालयः जसोला, नई दिल्ली-110025

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तेन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतदद्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भूगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या

लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है: अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
	श्री राघवेन्द्र सिंह के नाम में आवासीय सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रथम तल (छत अधिकारों के बिना छत के स्तर तक) सम्पत्ति सं.929, गली नं.8, क्षेत्रफल परिमाप 60 वर्ग गज, खसरा सं.93 का भाग, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली—110019 पर स्थित है। जो घिरा है (मूल्यांकन / कानूनी राय / वर्तमान स्थित के अनुसार): उत्तरः मार्ग, सम्पत्ति सं.929 का भाग दिख्या अन्य की सम्पत्ति	को एनपीए 10.08.2020 को बकाया रू.15,13,823/- + ब्याज (जो दस

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली दिनांकः 10.08.2020